

## काजरी, जोधपुर एवं केर्यन इण्डिया के मध्य एमओयू: रोजगार, समृद्धि, हरियाली, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए होंगे कार्य

केर्यन इण्डिया लिमिटेड वेदान्ता एवं आईसीएआर - काजरी, जोधपुर के मध्य 12 जुलाई को एमओयू साईन हुआ, जिसके तहत काजरी शुष्क क्षेत्रों में कृषि के विकास हेतु संस्थान द्वारा विकसित की गई विभिन्न तकनीकियों को केर्यन इण्डिया को प्रदान करेगा। केर्यन इण्डिया वेदान्ता सीएसआर के अध्यक्ष मनोज अंग्रवाल एवं डीजीएम केर्यन राजस्थान शास्वत कुलश्रेष्ठ ने कहा कि बाड़मेर जिले में ऑयल एवं गैस के प्लान्ट स्थित है, उन क्षेत्रों में केर्यन फाउण्डेशन अपने फण्ड से सीएसआर प्रोग्राम के तहत स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, कृषि विकास, रोजगार सृजन शिक्षा, चिकित्सा, कौशलता आदि के कार्यों को संचालित करते हैं। उन्होंने कहा कि काजरी के सहयोग से कृषि विकास कार्यों में गति आयेगी एवं क्षेत्र को फायदा होगा।

काजरी निदेशक डा. ओ.पी. यादव ने कहा कि संस्थान, तकनीकी ज्ञान एवं विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान करेगा। गांवों के लोगों में ज्ञानवर्द्धन के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, प्रदर्शन के माध्यम से लोगों का ज्ञानवर्द्धन करेगा तथा बागवानी के लिए पौधे, बीज आदि उपलब्ध करावायेगा। आपसी समन्वय, सहयोग एवं भागीदारी से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन होगा जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा आय में वृद्धि होगी। किसानों की रुचि एवं उनकी मांगए आवश्यकता को देखते हुए तकनीकी प्रदान की जायेगी। संस्थान खेती, पर्यावरण संरक्षण, डेयरी व्यवसाय, बागवानी, विकास आदि कार्यों में पूर्ण सहयोग करेगा।

इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डा. सीबी पाण्डे, डा. प्रवीण कुमार, डा. आर के भट्ट, डा. ए के मिश्रा, डा. प्रतिभा तिवारी, डा. आर के कौल, डा. आर एस त्रिपाठी, डा. उदय बर्मन, डा. प्रियबत सान्तरा, डा. सुरेन्द्र पुनिया उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डा. दिलीप जैन ने किया।

